



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 चैत्र 1936 (श0)  
(सं0 पटना 353) पटना, बुधवार, 2 अप्रील 2014

---

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना  
21 जून 2011

सं0 8/व 3-31/2010-692—बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-2 (d) एवं 2 (e) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग को पुनः निम्नरूपेण परिभाषित किया जाता है।

(क) अलाभकारी समूह के बच्चे— अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रुपये तक की हो।

(ख) कमजोर वर्ग के बच्चे— कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से कम हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 25.03.2011 के तहत इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व कृत कार्रवाई इस अधिसूचना से निष्प्रभावी मानी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 353-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>